

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 01.07.2021

महसो बाजार थाना लालगंज में हुई लूट का सफल अनावरण पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटर साईकिल व चोरी की 58,500/- रुपया तथा दो अदद तमंचा बरामद

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी रुधौली श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा के कुशल पर्यवेक्षण में महसो बाजार थाना लालगंज में दिनांक 20.06.2021 को देशी शराब की दुकान में हुई लूट की घटना मु0अ0सं0 114/21 धारा 392,397,411 IPC का सफल अनावरण करते हुए थानाध्यक्ष लालगंज श्री रोहित उपाध्याय, प्रभारी एंटी नारकोटिक टीम श्री योगेश कुमार सिंह व प्रभारी एंटी वैकल टीम श्री गजेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त कर्यवाही करते हुए आज दिनांक 01.07.2021 को पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त 1. दीपक चौधरी उर्फ रामु उर्फ प्रदीप पुत्र दशरथ ग्राम लकड़ा थाना लालगंज जनपद बस्ती व 2. चन्दन निषाद पुत्र अर्जुन प्रसाद निषाद ग्राम गोनार थाना लालगंज जनपद बस्ती को भवानी पुर नरौली मार्ग पर पाकड़ डाड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त चन्दन के बाए पैर में व दीपक चौधरी के दाए पैर में गोली लगी है। घायलो को इलाज हेतु जिला अस्पताल बस्ती भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान एंटी नारकोटिक टीम के आरक्षी रमेश कुमार गुप्ता के हाथ में गोली लगी है।

अभियुक्त गण द्वारा पुलिस पर अवैध असलहे से फायर करने अन्य बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 122/21 धारा 307,420,467,468,471 भा0द0वि0, मु0अ0सं0 123,124/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. दीपक चौधरी उर्फ रामु उर्फ प्रदीप पुत्र दशरथ ग्राम लकड़ा थाना लालगंज जनपद बस्ती।
2. चन्दन निषाद पुत्र अर्जुन प्रसाद निषाद ग्राम गोनार थाना लालगंज जनपद बस्ती।

पूछताछ में प्रकाश में आए अभियुक्तों का विवरण:-

1. नफीस खान पुत्र सवीर खान ग्राम महसो थाना लालगंज जनपद बस्ती।
2. नीरज गुप्ता पुत्र रामभगवत गुप्ता ग्राम जसराव (महसो) थाना लालगंज जनपद बस्ती।

चन्दन निषाद का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 382/2020 धारा 308,323 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

1. 85,500 रुपया नगद (लूट की)
2. एक अदद मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस (फर्जी नम्बर UP-51 R0452, सही नम्बर UP-58 F9007) चोरी की।
3. एक अदद तमंचा, दो अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

4. एक अदद तमंचा, दो अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतुस 12 बोरा

5. दो अदद मोबाइल फोन ।

पुछताछ का विवरण:-

पुछताछ में दोनो अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.06.2021 को हम दोनो तथा नीरज गुप्ता व नफीस खान ने प्लान बनाकर महसो राजा मैदान के बगल में देशी शराब की की दुकान का दरवाजा तोड़कर पिस्टल दिखाकर 1,98,000 रुपया ले लिए जिसमें हम दोनो दुकान के अन्दर घुसे थे निरज दरवाजे पर था तथा नफीस मैदान में खड़ा होकर आने-जाने वालो पर नजर रख रहा था लुट के उपरान्त हम दोनो 49,000-49,000 हजार तथा नफीस व निरज 50,000-50,000 रुपये लिए तथा लुट में जो पिस्टल हमने उपयोग किया था वह निरज का था घटना के बाद वह अपने साथ ले गया घटना में प्रयोग किया गया वाहन यही है जो आपने बरामद किया है । जिसको हम दोनो ने ग्राम अकेला कुवेरपुर में आयी एक बारात से चुराई थी । रुपयो के सम्बंध में चंदन निषाद से पुछा गया तो बताया कि 49,000 रुपये में से 30,000 रुपये उसी लूट का है जो आप को मिला तथा 12,000 रुपये का मैंने मोबाईल खरीद लिया वही मोबाइल है तथा 7,000 खाने पिने में खर्च हो गया है तथा दीपक चौधरी से पुछा गया तो बताया कि 49000 रुपये में से 28500 उसी लूट का है तथा 2000 रुपये का मैंने मोबाईल खरीद लिया है तथा 18500 रुपये मैंने अपने परिवार में खर्च कर दिया है । तमंचा व कारतुस के बारे में पुछने पर बताया कि विहार से एक व्यक्ति लाकर तमंचा कारतुस गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास बेचता है उसी से हम लोगो ने खरीदा है जिसका नाम पता हम लोग नहीं जानते है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस श्री अनिल कुमार जनपद बस्ती ।
2. थानाध्यक्ष लालगंज श्री रोहित कुमार उपाध्याय जनपद बस्ती ।
3. एण्टी नारकोटिक्स टीम प्रभारी योगेश कुमार सिंह जनपद बस्ती ।
4. एण्टी थेफ्ट टीम प्रभारी श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह जनपद बस्ती ।
5. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्र थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
6. उ0नि0 शशिकान्त थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
7. हे0का0 महेन्द्र यादव, हे0का0 कुलदीप यादव, हे0का0 जितेन्द्र सिंह, का0 सर्वेश नायक, का0 रमेश कुमार गुप्ता एण्टी नारकोटिक्स टीम जनपद बस्ती ।
8. हे0का0 आदित्य पाण्डेय, हे0का0 रामसुरेश यादव, हे0का0 राकेश कुमार, का0 महेन्द्र कुमार यादव, का0 देवेन्द्र निषाद एण्टी थेफ्ट टीम जनपद बस्ती ।
9. का0 जनार्दन प्रसाद, का0 हिन्दे आजाद सर्विलांस सेल जनपद बस्ती ।
10. हे0का0 राजेश सिंह, का0 पंकज सिंह, का0 रवि गौड़, का0 अजय कुमार यादव, का0 अमरजीत सरोज थाना लालगंज जनपद बस्ती ।

इस सराहनीय कार्य के लिए उपरोक्त टीम को पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा 25000 रुपये पुरस्कृत करने की घोषणा कि गयी ।